

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th March, 2018

No. 17/2018 – Central Tax

G.S.R. 306 (E).—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said persons shall furnish the details of outward supply of goods or services or both in FORM GSTR-1 effected during the quarter April to June, 2018 till the 31st day of July, 2018.

3. The special procedure or extension of the time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the Act, for the months of April to June, 2018 shall be, subsequently, notified in the Official Gazette.

[F. No. 349/58/2017-GST (Pt.)]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2018

सं. 18/2018 – केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 307(अ).—आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा जिनकी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपए से अधिक है, अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन प्ररूप **जीएसटीआर-1** में जावक आपूर्ति के ब्यौरे देने की समय सीमा को सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मास के लिए उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट समयावधि तक बढ़ाते हैं, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	मास	प्ररूप जीएसटीआर-1 में विवरणी फाइल करने की अंतिम अवधि
(1)	(2)	(3)
1.	अप्रैल, 2018	31 मई, 2018
2.	मई, 2018	10 जून, 2018
3.	जून, 2018	10 जुलाई, 2018